



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 512 राँची, शुक्रवार

18 मई, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

17 मई, 2018 ई०।

संख्या-05/एन०एस०ए०/01/02/2014-2425-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि हजारीबाग जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं०-65/1980) की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त नियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्योयाजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।